



UNDERGRADUATE (CBCS) EXAMINATION, NOVEMBER 2018

Third Semester

ADDITIONAL LANGUAGE -HINDI - HN3CCT01 - HINDI-POETRY, GRAMMAR AND TRANSLATION

(Common for Model I B.A and Model I BSc Programmes)

2017 Admission Onwards

Maximum Marks: 80

Time: 3 Hours

Part A

किन्ही दस प्रश्नों के उत्तर लिखिए

1. तुलसीदास के प्रबंधात्मक शैली में लिखा हुआ महाकाव्य का नाम लिखिए तुलसीदास की भाषा कौन सी है ?
2. मीरा कहती है कि प्रियतम गिरिधर के बिना मैं एक पल भी रह नहीं सकूँगी। मीरा क्यों ऐसा कहती है ?
3. मेषमाता की गोद से शिशु को छीनने से वह निर्निमेष रहती है क्यों ?
4. ज्ञानेन्द्रपति का जन्म कहाँ हुआ ? उनकी केंद्र साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत काव्य रचना का नाम क्या है ?
5. भाई की मृत्यु के पहले महानगर में आने पर बूढ़ा कहाँ रुकता था और भाई के मृत्यु के बाद कहाँ रहता है ?
6. "ठंडे पानी की मशीन" का लेखक कौन है? यह किस संकलन से लिया गया है ?
7. व्युत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित शब्दों का वर्गीकरण कीजिए। (a) नदी (b) पंकज
8. देशज शब्द क्या है ? उदाहरण दीजिए।
9. संज्ञाओं के रूपान्तर से क्या तात्पर्य है ? उदाहरण देकर समझाईए।
10. निम्नलिखित संज्ञाओं के बहुवचन लिखिए। (a) पुस्तक (b) रास्ता
11. निश्चित परिमाण वाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाण वाचक विशेषण में क्या अंतर है ?
12. शुद्ध कीजिए। राम ने पुस्तक पढ़ा।

(10×2=20)

Part B

किन्ही छः प्रश्नों के उत्तर लिखिए

13. श्रीरामचन्द्र जी को नौका पर चढ़ाने के लिए केवट क्यों तैयार नहीं होता ?
14. सप्रसंग व्याख्या कीजिए। वे सूने से नयन नहीं, जिनमें बनते आंसू-मोती, वह प्राणों की सेज नहीं, जिसमे बेसुध पीड़ा सोती
15. सप्रसंग व्याख्या कीजिए। जितना पवित्र पहले थे / उतने ही पवित्र आज भी, निष्कलुष / उनके खिलाफ़ कुछ भी सबूत नहीं।
16. दिल्ली के चौराहे पर कवि ने क्या क्या देखा?
17. अनुवाद कीजिए।

Soon after our first arrest in December 1921 the police started paying frequent visits to Anand Bhavan, our house in Allahabad. They came to realize the fines which had been imposed on father and me. It was the congress policy not to pay fines. So the police came day after day and attached and carried away bits of furniture.





18. अर्थ के आधार पर शब्द -भेद सोदाहरण स्पष्ट कीजिए।
19. लड़का कलम से लिखता है। हाथ से किताब गिर गयी। इन दोनों वाक्यों में "से" विभक्ति चिन्ह किन-किन कारकों के लिए प्रयुक्त हुए हैं? वाक्यों का अंतर समझाइए।
20. पुरुषवाचक "आप" और निजवाचक "आप" में क्या अंतर है?
21. व्युत्पत्ति के अनुसार क्रिया के कितने भेद हैं? उदाहरण सहित समझाइए।

(6×5=30)

Part C

किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लिखिए

22. खेवली कविता में धूमिल ने अपने गांव की दुरवस्था का वर्णन किस प्रकार किया है ?
23. मुक्त बाजार व्यवस्था और उदार अर्थनिति ने एक नयी आज़ादी दी है 'आज़ादी उर्फ़ गुलामी' कविता के आधार पर इसे स्पष्ट कीजिए।
24. दिल्ली दरवाज़ा' द्वारा कवि क्या व्यक्त करना चाहता है ?
25. 'अच्छे आदमी' कविता का सारांश लिखिए।

(2×15=30)

